

To,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

SUB: OFFER OPENING ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT AND LETTER OF OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF MEDIAONE GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED (“TARGET COMPANY”) IN TERMS OF REGULATION 18(7) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

Dear Sir /Madam,

We, Kunvarji Finstock Pvt Ltd (hereafter referred to as “Manager to the Offer”), are hereby submitting offer opening advertisement and corrigendum to the detailed public statement and letter of offer made by us on behalf of PPG International Limited (“Acquirer”) for acquisition of 38,27,200 equity shares of Mediaone Global Entertainment Limited, pursuant to and in compliance with, among others, Regulation 3(1) and Regulation 4 read with Regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto.


The open offering advertisement and corrigendum to the detailed public statement and letter of offer are published today i.e. January 9, 2023 in the following newspaper, which has been submitted herewith for your record.

| Newspaper | Language | Edition |
|-------------------|----------|-----------------|
| Business Standard | English | All Editions |
| Makkalkural | Tamil | Chennai Edition |
| Business Standard | Hindi | All Editions |
| Pratahkal | Hindi | Mumbai Edition |

Request you to kindly take the same on your record.

Yours Faithfully,

For, Kunvarji Finstock Private Limited



Mr. Atul Chokshi
Director (DIN: 00929553)
SEBI Reg. No: MB/INM000012564

Date: January 9, 2023
Place: Ahmedabad

Encl: Pre – Offer opening advertisement and Corrigendum to DPS
Kunvarji Finstock Pvt. Ltd.

Registered Office : Kunvarji, B - Wing, Siddhivinayak Towers, Off. S.G. Road, Makarba, Ahmedabad - 380 051
Phone:+91 79 6666 9000 | Fax : + 91 79 2970 2196 | Email: info@kunvarji.com
Corporate Office : 05, Gr Floor & 1218-20, 12th Floor, Summit Business Bay, Opp PVR Cinema, Near Western Express Highway-Metro Station, Andheri (E), Mumbai - 400093.
CIN - U65910GJ1986PTC008979
000093/2023



MEDIAONE GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED

Registered Office: Old No. 1/38, New No. 1/38, Mataji Complex, Flat no. 32, 1st Lane, Wallers Road, Mount Road, Chennai, Tamil Nadu - 600002. | Tel. No.: +91044-42966100

E-mail: contact@mediaoneglobal.in | Website: www.mediaoneglobal.in | CIN: L65993TN2002PLC065402

PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18 (7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011.

This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement is issued by Kunvarji Finstock Private Limited ('**Manager to the Offer**'), for and on behalf of PPG International Limited ('**Acquirer**') pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ('**SEBI (SAST) Regulations, 2011**'), in respect of the Open Offer to acquire 38,27,200 (Thirty-Eight Lakhs Twenty Seven Thousand and Two Hundred) Equity Shares of ₹2.00/- each of Mediaone Global Entertainment Limited ('**Target Company**' or '**TC**') representing 26.00% of the Voting Capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ('**DPS**') with respect to the aforementioned Open Offer was made on August 05, 2022, in Business Standard (English) All Editions, Makkalkural (Tamil) Chennai Edition, Pratahkal (Hindi) Mumbai Edition and Business Standard (Hindi) All Editions.

Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

- Offer Price:** The offer is being made at a Price of ₹2/- (Rupees Two Only) per Equity Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.
- Recommendations of the Committee of Independent Directors:** A Committee of Independent Directors of the TC ("IDC") published its recommendation on the offer on January 06, 2023, in Business Standard (English) All Editions, Makkalkural (Tamil) Chennai Edition, Pratahkal (Hindi) Mumbai Edition and Business Standard (Hindi) All Editions. The IDC is of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations, 2011. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.
- This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI Takeover Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
- The Letter of Offer was dispatched on January 03, 2023, to all the Eligible Shareholders of the TC, whose names appear in its Register of Members on December 27, 2022, the Identified Date.
- Please note that a copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance) is also available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Target Company (www.mediaoneglobal.in), the Registrar to the Offer (www.cameoindia.com), the Manager (www.kunvarji.com), BSE (www.bseindia.com), from which the Public Shareholders can download/print the same.
- There are currently no outstanding convertible instruments to be converted into Equity Shares of the Target Company at a future date. There has been no merger/ de-merger or spin-off in the Target Company during the past three years.
- Instructions for Public Shareholders:

A. In case of Equity Shares are held in Physical Form: The Public Shareholders who are holding Physical Equity Shares and intend to participate in the open offer shall approach the seller broker. The seller broker should place bids on the designated stock exchange platform with relevant details as mentioned on physical shares certificate(s). The selling broker shall print TRS generated by the exchange bidding system. TRS will contain the details of the order submitted folio no., certificate no., Dist.no., number of Equity Shares etc. and such Equity Shareholders should note Physical Equity Shares will not be excepted unless the complete set of documents as mentioned on page 24 is submitted. Acceptance of the Physical Equity Shares for the Open Offer shall be subject to verification by the Registrar & Transfer Agent (RTA). On receipt of the confirmation from the RTA, the bid will be accepted otherwise it would be rejected and accordingly the same will be depicted on the Exchange platform.

B. In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form: eligible person(s) may participate in the offer by approaching their respective selling broker and tender shares in the Open Offer as per the procedure mentioned on page 23 of the letter of offer.

C. Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer: In case of non-receipt of the LoF, the public shareholders holding the Equity Shares may download the same from the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, Manager to the Offer at www.kunvarji.com, the Registrar to the Offer at www.cameoindia.com and BSE at www.bseindia.com. Alternatively, they may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, the number of equity shares held, client ID number, DP name, DP ID number, Folio No. certificate no., Dist.no., no (In case of physical shares) the number of equity shares tendered and other relevant documents and other relevant documents as mentioned on page 25 of the LoF.

- In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on August 17, 2022 All observations, received from SEBI by way of their letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-2/OW/2022/63494/1 dated December 23, 2022, in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, have been duly incorporated in the LOF.
- There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on July 29, 2022, saves as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.
- As of date, to the best of the knowledge of the Acquirer, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in the Letter of Offer.
- The Open Offer will be implemented through Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of a separate window ('Acquisition Window') as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated 13th April 2015 as amended via SEBI circular CFD/DCR-2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016. The Acquirer has through whom the purchases and settlement of the Open Offer shall be made during the Tendering period. The detailed procedure for tendering of shares is given in para - 9 "Procedure for Acceptance and Settlement" of the Letter of Offer.

12. Revised Schedule of Activities:

| ACTIVITY | DATE AND DAY (AS MENTIONED IN DLOF) | DATE AND DAY (AS MENTIONED IN LOF) |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Public Announcement (PA) Date | 29/07/2022 Friday | 29/07/2022 Friday |
| Publication of Detailed Public Statement (DPS) in the newspapers | 05/08/2022 Friday | 05/08/2022 Friday |
| Filing of the draft letter of offer with SEBI | 17/08/2022 Wednesday | 17/08/2022 Wednesday |
| Last date for Public Announcement of a competing offer | 01/09/2022 Thursday | 01/09/2022 Thursday |
| Last date for SEBI observations on Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer) | 08/09/2022 Thursday | 23/12/2022 Friday |
| Identified Date* | 12/09/2022 Monday | 27/12/2022 Tuesday |
| Letter of Offer to be dispatched to Shareholders | 19/09/2022 Monday | 03/01/2023 Tuesday |
| Last Date by which the committee of the Independent Directors of the Target Company shall give its recommendation | 22/09/2022 Thursday | 06/01/2023 Friday |
| Last date for upward revision of the offer price and/or the Offer Size | 23/09/2022 Friday | 09/01/2023 Monday |
| Date of publication of Offer Opening Public Announcement | 23/09/2022 Friday | 09/01/2023 Monday |
| Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date) | 26/09/2022 Monday | 10/01/2023 Tuesday |
| Date of expiry of Tendering Period (Offer Closing Date) | 10/10/2022 Monday | 23/01/2023 Monday |
| Last Date for completion of all requirements including payment of consideration | 25/10/2022 Tuesday | 07/02/2023 Tuesday |

*Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all the Shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except all the Acquirer, Seller and Promoter and Promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time before the closure of this Offer..

The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer**KUNVARJI FINSTOCK PRIVATE LIMITED**

Block B, First Floor, Siddhi Vinayak Towers, Off S. G. Highway Road, Mouje Makarba, Ahmedabad, Gujarat - 380051

SEBI Reg. No. : MB/INM000012564

Email Id : niraj.thakkar@kunvarji.com

Website: www.kunvarji.com

Contact Person: Mr. Niraj Thakkar / Mr. Ronak Dhruve

Tel. No. : 079- 66669000

For and on behalf of the Acquirer

Raka

Place: Chennai
Date: 09/01/2023

Sd/-
Mr. J. Jayakumar (Authorized Signatory)

MEDIAONE GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED

Registered Office: Old No. 1/38, New No. 1/38, Mataji Complex, Flat no. 32, 1st Lane, Wallers Road, Mount Road, Chennai, Tamil Nadu - 600002.

Tel. No. +91 044-42966100; **E-mail:** contact@mediaoneglobal.in; **Website:** www.mediaoneglobal.in;
CIN: L65993TN2002PLC065402

PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18 (7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011.

This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement is issued by Kunvarji Finstock Private Limited (**'Manager to the Offer'**), for and on behalf of PPG International Limited (**'Acquirer'**) pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (**'SEBI (SAST) Regulations, 2011'**), in respect of the Open Offer to acquire 38,27,200 (Thirty-Eight Lakhs Twenty Seven Thousand and Two Hundred) Equity Shares of ₹ 2.00/- each of Mediaone Global Entertainment Limited (**'Target Company' or 'TC'**) representing 26.00% of the Voting Capital of the Target Company. The Detailed Public Statement (**'DPS'**) with respect to the aforementioned Open Offer was made on August 05, 2022, in Business Standard (English) All Editions, Makkalkural (Tamil) Chennai Edition, Pratahkal (Hindi) Mumbai Edition and Business Standard (Hindi) All Editions.

Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

- Offer Price:** The offer is being made at a Price of ₹ 2/- (Rupees Two Only) per Equity Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.
- Recommendations of the Committee of Independent Directors:** A Committee of Independent Directors of the TC (**'IDC'**) published its recommendation on the offer on January 06, 2023, in Business Standard (English) All Editions, Makkalkural (Tamil) Chennai Edition, Pratahkal (Hindi) Mumbai Edition and Business Standard (Hindi) All Editions. The IDC is of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations, 2011. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.
- This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI Takeover Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
- The Letter of Offer was dispatched on January 03, 2023, to all the Eligible Shareholders of the TC, whose names appear in its Register of Members on December 27, 2022, the Identified Date.
- Please note that a copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance) is also available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Target Company (www.mediaoneglobal.in), the Registrar to the Offer (www.cameoindia.com), the Manager (www.kunvarji.com), BSE (www.bseindia.com), from which the Public Shareholders can download/print the same.
- There are currently no outstanding convertible instruments to be converted into Equity Shares of the Target Company at a future date. There has been no merger/ de-merger or spin-off in the Target Company during the past three years.
- Instructions for Public Shareholders:

A. In case of Equity Shares are held in Physical Form:

The Public Shareholders who are holding Physical Equity Shares and intend to participate in the open offer shall approach the seller broker. The seller broker should place bids on the designated stock exchange platform with relevant details as mentioned on physical shares certificate(s). The selling broker shall print TRS generated by the exchange bidding system. TRS will contain the details of the order submitted folio no., certificate no., Dist.no., number of Equity Shares etc. and such Equity Shareholders should note Physical Equity Shares will not be excepted unless the complete set of documents as mentioned on page 24 is submitted. Acceptance of the Physical Equity Shares for the Open Offer shall be subject to verification by the Registrar & Transfer Agent (RTA). On receipt of the confirmation from the RTA, the bid will be accepted otherwise it would be rejected and accordingly the same will be depicted on the Exchange platform.

- B. In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form:** eligible person(s) may participate in the offer by approaching their respective selling broker and tender shares in the Open Offer as per the procedure mentioned on page 23 of the letter of offer.

C. Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer

In case of non-receipt of the LoF, the public shareholders holding the Equity Shares may download the same

from the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, Manager to the Offer at www.kunvarji.com, the Registrar to the Offer at www.cameoindia.com and BSE at www.bseindia.com. Alternatively, they may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, the number of equity shares held, client ID number, DP name, DP ID number, Folio No. certificate no., Dist.no., no (In case of physical shares) the number of equity shares tendered and other relevant documents and other relevant documents as mentioned on page 25 of the LoF.

8. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on August 17, 2022. All observations, received from SEBI by way of their letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-2/OW/2022/63494/1 dated December 23, 2022, in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, have been duly incorporated in the LOF.
9. There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on July 29, 2022, save as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.
10. As of date, to the best of the knowledge of the Acquirer, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in the Letter of Offer.
11. The Open Offer will be implemented through Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of a separate window ('Acquisition Window') as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated 13th April 2015 as amended via SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016. The Acquirer has through whom the purchases and settlement of the Open Offer shall be made during the Tendering period. The detailed procedure for tendering of shares is given in para – 9 "Procedure for Acceptance and Settlement" of the Letter of Offer.
12. Revised Schedule of Activities:

| ACTIVITY | DATE AND DAY (AS MENTIONED IN DLOF) | DATE AND DAY (AS MENTIONED IN LOF) |
|--|--|---------------------------------------|
| Public Announcement (PA) Date | 29/07/2022 Friday | 29/07/2022 Friday |
| Publication of Detailed Public Statement (DPS) in the newspapers | 05/08/2022 Friday | 05/08/2022 Friday |
| Filing of the draft letter of offer with SEBI | 17/08/2022 Wednesday | 17/08/2022 Wednesday |
| Last date for Public Announcement of a competing offer | 01/09/2022 Thursday | 01/09/2022 Thursday |
| Last date for SEBI observations on Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer) | 08/09/2022 Thursday | 23/12/2022 Friday |
| Identified Date* | 12/09/2022 Monday | 27/12/2022 Tuesday |
| Letter of Offer to be dispatched to Shareholders | 19/09/2022 Monday | 03/01/2023 Tuesday |
| Last Date by which the committee of the Independent Directors of the Target Company shall give its recommendation | 22/09/2022 Thursday | 06/01/2023 Friday |
| Last date for upward revision of the offer price and/or the Offer Size | 23/09/2022 Friday | 09/01/2023 Monday |
| Date of publication of Offer Opening Public Announcement | 23/09/2022 Friday | 09/01/2023 Monday |
| Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date) | 26/09/2022 Monday | 10/01/2023 Tuesday |
| Date of expiry of Tendering Period (Offer Closing Date) | 10/10/2022 Monday | 23/01/2023 Monday |
| Last Date for completion of all requirements including payment of consideration | 25/10/2022 Tuesday | 07/02/2023 Tuesday |

**Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all the Shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except all the Acquirer, Seller and Promoter and Promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time before the closure of this Offer.*



The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

KUNVARJI

SINCE 1960

Driven By Knowledge

KUNVARJI FINSTOCK PRIVATE LIMITED

Block B, First Floor, Siddhi Vinayak Towers, Off S. G. Highway Road, Mouje Makarba, Ahmedabad, Gujarat - 380051

SEBI Reg. No. : MB/INM000012564


Email Id : niraj.thakkar@kunvarji.com;

Website: www.kunvarji.com

Contact Person: Mr. Niraj Thakkar / Mr. Ronak Dhruve

Tel. No. : 079- 66669000

For and on behalf of the Acquirer


Mr. J. Jayakumar (Authorized Signatory)

Date: 09/01/2023

Place: Chennai

PMO holds review meeting with Uttarakhand officials

WITIN KUMAR
New Delhi, 8 January

The Prime Minister's Office (PMO) on Sunday held a high-level review meeting on Joshimath subsidence. P. K. Mishra, principal secretary to the Prime Minister, attended the review meeting with the Cabinet secretary, other senior officials of the central government, and members of the National Disaster Management Authority (NDMA), said an official statement.

Uttarakhand Chief Secretary Sukhbir Singh Sandhu and Director General of Police Ashok Kumar also attended the meeting of the PMO via videoconference. Interacting with the media after the meeting, Sandhu said, "People should be shifted from risk-prone areas, and the reasons for the subsidence) found out quickly. The Government of India has spoken to experts. A team will be reaching Joshimath on Monday."

Joshimath is the gateway to famous pilgrimage sites like Badrinath and Hemkund Sahib and the international skiing destination, Auli.

Area declared landslide-subsidence zone, over 60 families evacuated

Joshimath has been declared a landslide-subsidence zone and over 60 families living in uninhabitable houses in the sinking town have been evacuated to temporary relief centres, a senior official said on Sunday. At least 90 more families have to be evacuated. The local administration has set up relief centres to cater to the evacuees in the malayantown, Garhwal Commissioner Sushil Kumar said.

A team from the National Disaster Response Force and four teams from the State Disaster Response Force have already reached Joshimath. Meanwhile, in a telephonic conversation on Sunday, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, Prime Minister Narendra Modi on Sunday enquired after the steps taken for the safety and rehabilitation of the affected residents.

According to the Chief Minister's Office, Modi sought details on the progress of immediate and long-term relief work from the Uttarakhand Chief Minister. Dhami had visited Joshimath on Saturday to assess the on-ground situation, a day after he directed the immediate evacuation of around 600 affected families. He said Joshimath is an important place for culture, religion, and tourism, and all efforts will be made to save it.

Border Management secretary and members of NDMA are to visit Uttarakhand on Monday and assess the situation. A team of experts from the National Institute of Disaster Management, Geological Survey of India, IIT Roorkee, Wadia Institute of Himalayan Geology (Dehradun), National Institute of Hydrology (Roorkee), and Central Building Research Institute will study and give recommendations.

Experts point to no fault lines as Joshimath hits 'tip of no return'

Several experts claim independent scientists have been kept away from studying the project town.

Joshimath, the gateway to various pilgrimage sites, including Badrinath and Hemkund Sahib, seems to have reached a point of no return.

Calamity knocked the door of the holy town last week, when around 600 houses were reported to have witnessed cracks.

This was followed by intense protests by the residents, who demanded a ban on all types of construction activities.

This includes the Tapovan-Vishnugad hydro power project of India's largest power generator NTPC and all-weather Char Dham road between Helang and Marwari.

Though the government has now stopped all construction activities and formed a committee to study the geologically-unstable region, geologists believe that the town is beyond repair.

"To some extent, it seems that the situation is irreversible," said experts.

"There is no solution for Joshimath now and the government should save the people," said geologist Sarwati Prakash Sati. The rate of subsidence is too high and any day all these houses, which have developed cracks, could collapse, added Sati.

Sati, along with Shubraha Sharma and Navin Juyal, conducted an independent study of the town in 2022 and found that land subsidence increased substantially after the Rishi Ganga incident in 2021.

Their study also highlighted that none of the recommendations were being followed in the development of the town.

"None of the recommendations were followed in planning and execution of the projects in the area — includ-



A number of studies highlighted that none of the recommendations made by various committees were followed in the development of the town PHOTO: PTI

ing the hydro power project," said Sati.

Tug of war between ecology and development

In an official statement last week, NTPC claimed that the tunnel made for the Tapovan Vishnugad project does not pass through Joshimath.

According to an independent project expert, two tunnels are being dug as part of the 520 megawatt (Mw) Tapovan-Vishnugad Hydroelectric project.

One is being dug from Tapovan and the other from Selang.

"This tunnel has been constructed with a tunnel-boring machine and no blasting work has been done in the recent past. NTPC wants to inform us with full responsibility that this tunnel has nothing to do with landslides happening in Joshimath. NTPC expresses its sympathy and condolences to the residents of Joshimath city in such an odd situation," said the statement.

However, several experts claim independent scientists have been kept away from studying the project.

A report by the Mishra Committee — in 1976 — had warned of not removing boulders by digging or blasting the hillside for road repairs and other construction activities.

The committee, headed by MC Mishra, then Garhwal commissioner of erstwhile Uttar Pradesh, was formed in 1964 to study the ecologically-volatile Joshimath.

According to experts, the commission was constituted after huge deployment of troops and infrastructure development during and post the Indo-China war of 1962.

In 1976, the commission, in its report, called for banning heavy construction in the area around Joshimath.

Researchers claim that an unprecedented spurt of infrastructure development activities has disturbed the natural equilibrium of Joshimath, thus resulting in the sinking of the town.

Joshimath is situated at a 6,000 feet in the Chamoli district of Uttarakhand, in the seismically-active Zone V — a region with a high risk of earthquakes.

According to the seismic zoning map of the country, Zone V is seismically the most active region. And approximately, 11 per cent of the area of the country falls under this category. In any landslide-prone location, construction activities like hydropower and highways make the location more unstable.

Halting construction will not help

Himanshu Thakkar, coordinator, South Asia Network on Dams, Rivers and People, said that even if construction remains halted and all projects are abandoned, then also, there is a risk that the landslides projects have followed out the area.

Thakkar believes that only a detailed study of the region would determine the severity of the crisis.

He recommends that in the Himalayan region, fragile areas, only sustainable development should be done.

The rising population due to tourism and lack of proper drainage infrastructure also increased the built up areas, changing the town's ecological dynamics.

The government's newly-formed committee is scheduled to submit its report on Monday. But environmentalists believe that it is hardly going to come up with any plan.

"The committee constitutes all the government stakeholders and lacks independent voices," said Mallika Bhanot, an environmentalist associated with the Ganga Mukti Abhiyan.

Independent activists and environmentalists should be made part of the study, added Bhanot.

MEDIAONE GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED

Registered Office: Old No. 1/38, New No. 1/38, Mataji Complex, Flat no. 32, 1st Lane, Wallers Road, Mount Road, Chennai, Tamil Nadu - 600002 | Tel. No. +91-044 - 42966100
E-mail: contact@mediaoneglobal.in | Website: www.mediaoneglobal.in | CIN: L65993TN2002PLC005402

PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18 (7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011.

This Pre-Offer Advertisement is being issued by Kuntarji Fintstock Private Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of PPG International Limited ("Acquirer") pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations, 2011"). In respect of the Offer to acquire 38,27,200 (Thirty-Eight Lakh Twenty Seven Thousand and Two Hundred) Equity Shares of MediaOne Global Entertainment Limited ("Target Company" or "TC") representing 26.00% of the Voting Capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned Offer was made on August 05, 2022, in Business Standard (English) All Editions, Makkalakuari (Tamil) Chennai Edition, Prastabik (Hindi) Mumbai Edition and Business Standard (Hindi) All Editions.

Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

- Offer Price:** The offer is being made at a Price of ₹2/- (Rupees Two Only) per Equity Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.
- Recommendations of the Committee of Independent Directors:** A Committee of Independent Directors of the TC ("CIC") published its recommendations on August 05, 2022, in Business Standard (English) All Editions, Makkalakuari (Tamil) Chennai Edition, Prastabik (Hindi) Mumbai Edition and Business Standard (Hindi) All Editions. It is the IC of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations, 2011. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.
- This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI Takeover Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
- The Letter of Offer was dispatched on January 03, 2023, to all the Eligible Shareholders of the TC, whose names appear in its Register of Members on December 27, 2022, in the Offer.
- Please note that a copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance) is also available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Target Company (www.mediaoneglobal.in), the Registrar to the Offer (www.camoindia.com), the Manager (www.kuntarji.com), BSE (www.bseindia.com), and where the Public Shareholders can download/print the same.
- There are currently no outstanding convertible instruments to be converted into Equity Shares of the Target Company at a future date. There has been no merger/dividend or spin-off in the Target Company during the past three years.
- Instructions for Public Shareholders:
 - In case of Equity Shares are held in Physical Form:** The Public Shareholders who are holding Physical Equity Shares and intend to participate in the offer should place their bids on the designated stock exchange platform with relevant details as mentioned on physical shares certificate(s). The selling broker shall print TRS generally by the Target Company. TRS will contain the details of the order submitted (no. of shares, certificate no., Dist. no., number of Equity Shares etc.) and such Equity Shareholders should note Physical Equity Shares will not be accepted unless the complete set of documents as mentioned on page 24 is submitted. Acceptance of the Physical Equity Shares for the Offer shall be subject to verification by the Registrar & Transfer Agent (RTA). On receipt of the confirmation from the RTA, the offer will be accepted otherwise it would be rejected and accordingly the same will be deleted on the Exchange platform.
 - In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form:** eligible person(s) may participate in the offer by approaching their respective selling broker and tender shares in the Offer Offer as per the procedure mentioned on page 23 of the Letter of Offer.
- Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer:** In case of non-receipt of the LOF, the public shareholders holding the Equity Shares may download the same from the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, Manager to the Offer at www.kuntarji.com, the Registrar to the Offer at www.camoindia.com and BSE at www.bseindia.com. Alternatively, they may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, the number of equity shares held, client ID number, DP name, DP ID number, Folio No., certificate no., Dist. no. (in case of physical shares), the number of equity shares tendered and other relevant documents and other relevant documents as mentioned on page 25 of the LOF.
- In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on August 17, 2022. All observations, received from SEBI by way of their letter no. SEBI/IM/CFD/DCR-2/OW/2022/634941 dated December 23, 2022, in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, have been duly incorporated in the LOF. There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on July 29, 2022, save as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.
- As of date, to the best of the knowledge of the Acquirer, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in the Letter of Offer.
- The Offer will be implemented through Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of a separate window ("Acquisition Window") as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL1/2015 dated 13th April 2015 as amended via SEBI circular CFD/DCR/CR/P/2016/131 dated December 09, 2016. The Acquirer through whom the purchases and settlement of the Offer shall be made during the Tendering Period. The detailed procedure for tendering of shares is given in para - 9 "Procedure for Acceptance and Settlement" of the Letter of Offer.
- Revised Schedule of Activities:

| ACTIVITY | DATE AND DAY (AS MENTIONED IN LOF) | DATE AND DAY (AS MENTIONED IN LOF) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Public Announcement (PA) Date | 23/07/2022 Friday | 23/07/2022 Friday |
| Publication of Detailed Public Statement (DPS) in the newspapers | 05/08/2022 Friday | 05/08/2022 Friday |
| Filing of the draft Letter of Offer with SEBI | 17/08/2022 Wednesday | 17/08/2022 Wednesday |
| Last date for Public Announcement of a competing offer | 01/09/2022 Thursday | 01/09/2022 Thursday |
| Last date for SEBI observations on Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer) | 08/09/2022 Thursday | 23/12/2022 Friday |
| Identified Date* | 12/09/2022 Monday | 27/12/2022 Tuesday |
| Letter of Offer to be dispatched to Shareholders | 19/09/2022 Monday | 03/01/2023 Tuesday |
| Last Date by which the members of the Independent Directors of the Target Company shall give its recommendation | 22/09/2022 Thursday | 06/01/2023 Friday |
| Last date for upward revision of the offer price and/or the Offer Size | 23/09/2022 Friday | 09/01/2023 Monday |
| Date of publication of Offer Opening Public Announcement | 23/09/2022 Friday | 09/01/2023 Monday |
| Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date) | 26/09/2022 Monday | 10/01/2023 Tuesday |
| Date of expiry of Tendering Period (Offer Closing Date) | 10/10/2022 Monday | 23/01/2023 Monday |
| Last Date for completion of all requirements including payment of consideration | 25/10/2022 Tuesday | 07/02/2023 Tuesday |

*Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer is sent. It is clarified that all the Shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except all the Acquirer, Seller and Promoter and Promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time before the closure of this Offer.

The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

KUNVARJI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
Block B, First Floor, Siddhi Vinayak Towers, Off S.G. Highway Road, Muzaffarpur, Ahmedabad, Gujarat - 380051
SEBI Registration No. - MEIN0000012564
Email ID: niraj.thakkar@kuntarji.com
Website: www.kuntarji.com
Contact Person: Mr. Niraj Thakkar / Mr. Ronak Dhruve
Tel. No. : 079 - 66699900

For and on behalf of the Acquirer
Sd/-
Mr. J. Jayakumar (Authorized Signatory)

Place: Chennai
Date: 09/01/2023

FROM PAGE 1 Chandra...

The doctor said he is speaking out now because of claims by Mishra's father that his son is innocent and may have been a victim of extortion.

The doctor, who made a handwritten complaint to the airline, said that to make the victim talk to Mishra after the incident was "no" because indecent exposure is a crime.

"And once that happens, nobody should take a mediation route," he said.

Wilson said on January 6 said it had fired Mishra. After registering an FIR, the Delhi Police arrested him on January 7 from Bengaluru. Air India's four cabin crew members and one pilot who were on the flight have been issued show-cause notices and have been de-rostered pending an investigation, the airline's Chief Executive Officer and Managing Director Campbell Wilson said on Saturday.

Internal investigation into whether there were lapses by other staff were ongoing "on aspects, including the service of alcohol on the flight," accident handling, complaint registration on board and grievance handling," he added.

"Air India acknowledges that it could have handled these matters better — both in

the air and on the ground — and is committed to taking action," Wilson said, referring to not only the November 26 incident but also the December 6 incident that took place on the airline's Paris-Delhi flight wherein a male passenger had urinated on the blanket of a female co-passer. "We regret and are pained about these experiences," Wilson said, adding that the airline was reviewing its policy on serving alcohol.

Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia has promised speedy action in the case. "Further action will be taken speedily after the completion of the ongoing proceedings," Scindia told reporters in Gwalior on Saturday. The DGCA had on January 5 said the airline violated rules related to the handling of an unruly passenger onboard, and its conduct led to a "systemic failure". The regulator called Air India "unprofessional" and "devoid of empathy" while dealing with the victim.

With inputs from PTI

Earnings preview...

In comparison, the brokerage expects an earnings contraction in metals, cement, pharmaceuticals, logistics, and specialty chemicals.

Kotak Institutional Equity (KIE) expects banks and automotive makers to shine in Q3FY23 while mining and metals and oil companies are expected to be laggards.

"We expect (the) net income of automobiles (margin expansion owing to low commodity prices) and banks (strong loan growth, stable NIMs and a steady decline in loan-loss provisions) to increase sharply on a Y-o-Y basis but (the) net income of downstream oil companies (continued auto fuel under-recovery) and metals & mining (lower commodity prices, weaker realization) to decline sharply on a Y-o-Y basis. We expect single-digit Y-o-Y growth in net profit for Q3FY23.

Analysts at KIE expect Q3FY23 net profits of the 30 Sensex companies to increase 9 per cent Y-o-Y and 6 per cent Q-o-Q and for the Nifty 50 companies to go up 11 per cent Y-o-Y and 9 per cent Q-o-Q.

Among index companies, Bharti Airtel is expected to top earnings growth in Q3FY23 with 74.2 per cent Y-o-Y increase in net profit on a low base, followed by Maruti Suzuki (net profit up 91 per cent Y-o-Y), Coal India (up 85 per cent), Eicher Motors (up 60 per cent) and IndusInd Bank (up 60 per cent). At the other end of the spectrum, Tata Steel could be the biggest laggard (82 per cent Y-o-Y decline), followed by JSW Steel (down 74.6 per cent), Hindalco Industries (down 51.4 per cent Y-o-Y), Div's Labs (down 45.9 per cent) and Ultratech Cement (down 27.2 cent).

Tata Digital...

Tata Digital has set up a target of 100-150 million users in the next two to three years.

According to a senior executive of Tata Digital, "The total customer base of Tata

Group companies is around 12-13 million. The current database that Tata Digital has is 83 million (excluding Titan and Tanishq). Tata Neu already has 27 million NeuPass members." Meanwhile, recent reports suggest some issues with the top leadership, with Mukesh Bansal, president of Tata Digital, understood to have stepped back from day-to-day operations.

Group companies are around 12-13 million. The current database that Tata Digital has is 83 million (excluding Titan and Tanishq). Tata Neu already has 27 million NeuPass members." Meanwhile, recent reports suggest some issues with the top leadership, with Mukesh Bansal, president of Tata Digital, understood to have stepped back from day-to-day operations.

Group companies are around 12-13 million. The current database that Tata Digital has is 83 million (excluding Titan and Tanishq). Tata Neu already has 27 million NeuPass members." Meanwhile, recent reports suggest some issues with the top leadership, with Mukesh Bansal, president of Tata Digital, understood to have stepped back from day-to-day operations.

Group companies are around 12-13 million. The current database that Tata Digital has is 83 million (excluding Titan and Tanishq). Tata Neu already has 27 million NeuPass members." Meanwhile, recent reports suggest some issues with the top leadership, with Mukesh Bansal, president of Tata Digital, understood to have stepped back from day-to-day operations.

BS SUDOKU #3867

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | | | | 8 |
| 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 |
| | 1 | | | | | 7 | 2 | |
| | 6 | | | | | | | 3 |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | 7 | | | | | | 4 | 5 |
| | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | 5 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | 8 | 6 | |
| 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 |

SOLUTION TO #3868

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 |
| 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 1 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 |
| 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 |

Hard: ★★★★★
Solution tomorrow

HOW TO PLAY
Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 to 9

EVS...

"Average utilisation is around 15 per cent. Within the city, it is lower than 15 per cent but on the highways, it goes up to 25 per cent as the choice is limited," said AKSht. Bansal, founder and CEO.

The Statiq business model is based on long-term contracts for captive use of the bulk of its chargers. These include car fleet owners such as BluSmart, Uber, and last mile two-wheeler players for e-commerce. As a result, owing to the assured business, their capacity utilisation in these chargers has hit 40 per cent. These bulk consumers, of course, get charging rates that are discounted up to 40 per cent, said Bansal. He said he expects to break even by around two years. Bangalore-based electric two-wheeler company Ather Energy has also built its own public charging stations, primarily to ensure customers don't have any range hesitation.

By the end of, Ola Electric will have moved from 1000 chargers to 25,000. He said that a robust pan-India mobility infrastructure will be required to complement home charging and also to change the uses cases which are currently in cities.

உத்தரகாண்டம் புத்தையும் நகரம்: மக்களை பாதுகாப்பாக வெளியேற்ற நடவடிக்கை

முதலமைச்சருடன் பிரதமர் ஆலோசனை

புத்தையும் நகரம், உத்தரகாண்டம், தில்லி, மகன்-வமகா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மகன்-வமகா வெளியேற்ற நடவடிக்கை தொடங்கியுள்ளது. இதுவாழ்வு உத்தரகாண்டம் பிரதமர் மோடி தொடர்புபடுத்தியுள்ளார். இதுவாழ்வு உத்தரகாண்டம் பிரதமர் மோடி தொடர்புபடுத்தியுள்ளார். இதுவாழ்வு உத்தரகாண்டம் பிரதமர் மோடி தொடர்புபடுத்தியுள்ளார்.

ஒன்றிமட்டு கலெக்டர் இலாம்கர், மகன்-வமகா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மகன்-வமகா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மகன்-வமகா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மகன்-வமகா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆய்வுகள் நடத்தி உள்ளன. அவை விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மகன்-வமகா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மகன்-வமகா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மகன்-வமகா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



சுவாமி சேவியர் "காவிரி நீரோவியம்" நூல்: அமைச்சர் உதயநிதி வெளியிட்டார்

சுவாமி சேவியர் "காவிரி நீரோவியம்" நூல் அமைச்சர் உதயநிதி வெளியிட்டார். இதுவாழ்வு உத்தரகாண்டம் பிரதமர் மோடி தொடர்புபடுத்தியுள்ளார். இதுவாழ்வு உத்தரகாண்டம் பிரதமர் மோடி தொடர்புபடுத்தியுள்ளார்.

சுவாமி சேவியர் "காவிரி நீரோவியம்" நூல் அமைச்சர் உதயநிதி வெளியிட்டார். இதுவாழ்வு உத்தரகாண்டம் பிரதமர் மோடி தொடர்புபடுத்தியுள்ளார். இதுவாழ்வு உத்தரகாண்டம் பிரதமர் மோடி தொடர்புபடுத்தியுள்ளார்.

சுவாமி சேவியர் "காவிரி நீரோவியம்" நூல் அமைச்சர் உதயநிதி வெளியிட்டார். இதுவாழ்வு உத்தரகாண்டம் பிரதமர் மோடி தொடர்புபடுத்தியுள்ளார். இதுவாழ்வு உத்தரகாண்டம் பிரதமர் மோடி தொடர்புபடுத்தியுள்ளார்.

சுவாமி சேவியர் "காவிரி நீரோவியம்" நூல் அமைச்சர் உதயநிதி வெளியிட்டார். இதுவாழ்வு உத்தரகாண்டம் பிரதமர் மோடி தொடர்புபடுத்தியுள்ளார். இதுவாழ்வு உத்தரகாண்டம் பிரதமர் மோடி தொடர்புபடுத்தியுள்ளார்.

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT AND CORRIGENDUM OF THE DETAILED PUBLIC STATEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF SAVANT INFOCOMM LIMITED

Registered Office: 16 First Floor, Corporation Shopping Complex, Third Avenue, Andhra Nagar, Chennai-600020, Tamil Nadu, India.
Corporate Office: 163-1/1A, Mittal Tower, 16th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021, Maharashtra, India.
Phone No. +91-22-22222222, Email: info@savantinfocomm.com, Website: www.savantinfocomm.com

This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement ("Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum") is being issued First Overseas Capital Limited, on behalf of Mr. Laxman Ashok Savalkar and Mr. Girish Kalkalishor Sarda ("hereinafter individually referred as Acquirer 1 and Acquirer 2 and severally referred as Acquirers") and pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 8,78,878 (Eight Lakhs Seven Eight Thousand Eight Hundred Seventy Eight Only) of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company, at a price of ₹ 3/- (Rupees Three Only) per Equity Share ("Offer Price") payable in cash in terms of Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers has appeared in Financial Express (English Daily) all editions, Janasri (Hindi Daily) all editions, Makkai Kurai (Tamil Local) (Chennai edition) and Mumbai Lakshadep (Marathi Daily) (Mumbai Edition) on November 24, 2022.

- The Offer Price is ₹ 3/- (Rupees Three Only) per equity share payable in cash ("Offer Price").
- Committee of Independent Directors ("CID") of the Target Company of the opinion that the Offer Price of ₹ 3/- (Rupees Three Only) offered by the Acquirers is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified, the recommendation of CID was published in the aforementioned newspapers on January 06, 2023.
- The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to this Open Offer and the last date for making such competing offer has expired.
- The completion of dispatch of the Letter of Offer ("LOF") to all the Public Shareholders of Target Company was completed on January 03, 2023.
- Please note that a copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in and also on the website of Manager to the Offer, www.focindia.com and www.bsindia.com.
- Public Shareholders are requested to refer to the Section titled "Procedure for acceptance and Settlement" on Page 25 of the PA and beginning of Page no. 16 of the Letter of Offer in relation to the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer.
 - In case the Equity Shares are held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Offer by approaching their respective Broker/Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure along with other details as mentioned in Point 8.1.1 of the Letter of Offer.
 - In case the Equity Shares are held in dematerialized form: Eligible Person(s) may participate in the Offer by approaching their respective Broker/Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure as mentioned in Point 8.1.2 of the Letter of Offer.
- In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer had been submitted to SEBI on December 23, 2022. We have received the final observations in Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations from SEBI vide its Letter No. SEBI/HO/CFD/CDCR/RAC-1/P/OW/2022/635461 which has been incorporated in the LOF.
- As per page 13 of the LOF, in paragraph 3.1.4, the below is to be read in conjunction with allotments made on 29-04-1978, 11-10-1979, 15-02-1980, 01-06-1991 and 19-08-1991.

** Face Value of equity shares was Rs 100/- per shares till 19/08/1991, thereafter changed to Rs. 10/- per shares.
- Statutory and Other Approvals: To the best of the knowledge of Acquirers, there are no statutory or other approvals required by the Acquirer to complete the Acquisition under the SPA and under the Offer as on the date of advertisement. If, however, any statutory or other approval(s) becomes applicable prior to completion of such acquisition, the Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s).

| 11. Schedule of Activities: | Activity | Date | Day |
|---|----------|-------------------|----------|
| Publication of Detailed Public Statement in newspapers | | November 24, 2022 | Thursday |
| Last date of filing draft letter offer with SEBI | | December 01, 2022 | Thursday |
| Last date for a competing offer | | December 15, 2022 | Thursday |
| Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer | | December 23, 2022 | Friday |
| Identified date* | | December 27, 2022 | Friday |
| Date by which letter offer to be dispatched to the shareholders | | January 03, 2023 | Tuesday |
| Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation | | January 06, 2023 | Friday |
| Last date for revising the Offer Price | | January 03, 2023 | Monday |
| Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchanges and Target Company | | January 09, 2023 | Monday |
| Date of Opening of the Offer | | January 10, 2023 | Tuesday |
| Date of Closure of the Offer | | January 23, 2023 | Monday |
| Payment Date of consideration for the acquired shares | | February 03, 2023 | Tuesday |

* Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the parties to the SPA including persons deemed to be acting in concert with such parties) are eligible to participate in the Offer any time before the Closure of the Offer. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS MR. LAXMAN ASHOK SAVALKAR AND MR. GIRISH KALKALISHOR SARDA

FIRST OVERSEAS CAPITAL LIMITED
1-2 Shivan Chambers, Ground Floor, Madhav Road, Mumbai-400 001
Tel. No. +91 22 49599999 Email: rushabh@focindia.com / mts@focindia.com
Investor Grievance Email: investorcomplaints@focindia.com
Investor Website: www.focindia.com Contact Person: Mr. Rushabh Shrotri / Ms. Mala Sonji
SEBI Registration No.: INM0000033671

IN THE COMMERCIAL COURT CHENNAI
C.O.S.No. 422 OF 2023
STATE BANK OF INDIA
SME Branch,
Chennai-600 029
Vs.
M/s. Sri Ganapathy Agencies
Rep by its Director
Srinivasan Rand Srinivasan M
New No.10 No.12 New
Sri Ganapathy Agencies
Chennai-600032
Also at
Srinivasan R
Partner
M.Sri Ganapathy Agencies
M.Poornima Ramanujam
Apartment
Plot No.81, Door No.4,
Ramakrishna Nagar,
1st main road, Adambakkam
Chennai-600032
Srinivasan M Partner
M/s. Sri Ganapathy Agencies
Rep by its Director
Periyannaluppalayam S Street,
Kadapadi, Thiruvirupuram
Chennai-600027

WHEREAS the State Bank of India has instituted a suit against you under Order XXVII of the Code of Civil Procedure, 1908 for Rs. 8,33,61,71/- (Rupees Eight Lakh Thirty Three Thousand Six Hundred and Seventeen) with interest compounded with monthly rests from the date of the Plaintiff till the date of realization and costs came up for Rs. 8,33,61,71/- before the Hon'ble COMMERCIAL COURT, Chennai either in person or through your Counsel/Advocate at 10.15 A.M., failing which the matter will be heard and decided in your absence.

IN THE CIVIL ASSISTANT CITY COURT, CHENNAI
C.O.S.No. 422 OF 2023
STATE BANK OF INDIA
SME Branch,
Chennai-600 029
Vs.
M/s. Sri Ganapathy Agencies
Rep by its Director
Srinivasan R
Partner
M.Sri Ganapathy Agencies
M.Poornima Ramanujam
Apartment
Plot No.81, Door No.4,
Ramakrishna Nagar,
1st main road, Adambakkam
Chennai-600032
Srinivasan M Partner
M/s. Sri Ganapathy Agencies
Rep by its Director
Periyannaluppalayam S Street,
Kadapadi, Thiruvirupuram
Chennai-600027

WHEREAS the State Bank of India has instituted a suit against you under Order XXVII of the Code of Civil Procedure, 1908 for Rs. 2,83,22,88/- (Rupees Two Lakhs Eighty Three Thousand Two Hundred and Twenty Eight Only) with interest compounded with monthly rests from the date of the Plaintiff till the date of realization and costs came up for hearing on 05.12.2022 and the Hon'ble CIVIL ASSISTANT CITY COURT, Chennai has ordered summons through paper publication vide order dated 05.12.2022.

IN THE COMMERCIAL COURT CHENNAI
C.O.S.No. 422 OF 2023
STATE BANK OF INDIA
SME Branch,
Chennai-600 029
Vs.
M/s. Sri Ganapathy Agencies
Rep by its Director
Srinivasan R
Partner
M.Sri Ganapathy Agencies
M.Poornima Ramanujam
Apartment
Plot No.81, Door No.4,
Ramakrishna Nagar,
1st main road, Adambakkam
Chennai-600032
Srinivasan M Partner
M/s. Sri Ganapathy Agencies
Rep by its Director
Periyannaluppalayam S Street,
Kadapadi, Thiruvirupuram
Chennai-600027

WHEREAS the State Bank of India has instituted a suit against you under Order XXVII of the Code of Civil Procedure, 1908 for a sum of Rs. 2,83,22,88/- (Rupees Two Lakhs Eighty Three Thousand Two Hundred and Twenty Eight Only) with interest compounded with monthly rests from the date of the Plaintiff till the date of realization and costs came up for hearing on 15/11/2022 and the Hon'ble COMMERCIAL COURT, Chennai either in person or through your Counsel/Advocate at 10.15 A.M., failing which the matter will be heard and decided in your absence.

IN THE COMMERCIAL COURT CHENNAI
C.O.S.No. 422 OF 2023
STATE BANK OF INDIA
SME Branch,
Chennai-600 029
Vs.
M/s. Sri Ganapathy Agencies
Rep by its Director
Srinivasan R
Partner
M.Sri Ganapathy Agencies
M.Poornima Ramanujam
Apartment
Plot No.81, Door No.4,
Ramakrishna Nagar,
1st main road, Adambakkam
Chennai-600032
Srinivasan M Partner
M/s. Sri Ganapathy Agencies
Rep by its Director
Periyannaluppalayam S Street,
Kadapadi, Thiruvirupuram
Chennai-600027

PRE-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT MEDIAONE GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED

Registered Office: Old No. 1/38, New No. 1/38, Malai Complex, Flat no. 32, 1st Lane, Wallers Road, Mount Road, Chennai, Tamil Nadu - 600002 | Tel. No. +91-044 - 42965100
E-mail: contact@mediaoneglobal.in | Website: www.mediaoneglobal.in | CIN: 165993202200265-0402

PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18 (7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011.
This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement is issued by Kunvarji Firststock Private Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of PPS International Limited (Acquirer) pursuant to Regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") in respect of the Open Offer to acquire 38,27,200 (Thirty Eight Lakhs Twenty Seven Thousand and Two Hundred) Equity Shares of ₹20.00/- each of MediaOne Global Entertainment Limited ("Target Company" or "SIC") representing 26.00% of the Voting Capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned Open Offer was made on August 05, 2022. Business Standard (English) All Editions, Makkai Kurai (Tamil) Edition, Prabhakar (Hindi) Mumbai Edition and Business Standard (Hindi) All Editions.

- Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:**
- Offer Price:** The offer is being made at a Price of ₹2/- (Rupees Two Only) per Equity Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.
 - Recommendations of the Committee of Independent Directors:** A Committee of Independent Directors of the T.C ("CID") published its recommendation on the offer on January 06, 2023. It is also available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Target Company (www.mediaoneglobal.in), the Registrar to the Offer (www.camoinfo.com) and the Manager (www.kunvarji.com), BSE (www.bseindia.com), from which the Public Shareholders can download/print the same.
 - This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI Takeover Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
 - The Letter of Offer was dispatched on January 03, 2023, to all the Eligible Shareholders of the T.C, whose names appear in its Register of Members on December 27, 2022, the Identified Date.
 - Please note that a copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance) is also available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Target Company (www.mediaoneglobal.in), the Registrar to the Offer (www.camoinfo.com) and the Manager (www.kunvarji.com), BSE (www.bseindia.com), from which the Public Shareholders can download/print the same.
 - There are currently no outstanding convertible instruments to be converted into Equity Shares of the Target Company at a future date. There has been no merger, de-merger or spin-off in the Target Company during the past three years.
 - Instructions for Public Shareholders:

- In case of Equity Shares are held in Physical Form:** The Public Shareholders who are holding Physical Equity Shares and intend to participate in the open offer shall approach the seller broker. The seller broker should place bids on the designated stock exchange platform with relevant details as mentioned on physical shares certificate(s). The Selling Broker shall print ITS generated by the exchange bidding system. ITS will contain the details of the order submitted (i.e., certificate no., Dist.no., number of Equity Shares etc.) and such Equity Shareholders should note the Equity Shares will not be accepted unless the complete set of documents as mentioned on page 24 is submitted. Acceptance of the offer by the Public Shareholders for the Open Offer shall be subject to verification by the Registrar & Transfer Agent (RTA). On receipt of the confirmation from the RTA, the bid will be accepted whether it would be rejected and accordingly the same will be deposited on the Exchange platform.
- In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form:** eligible person(s) may participate in the Offer by approaching their respective selling broker and tender shares in the Offer as per the procedure mentioned on page 23 of the letter of offer.
- Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer:** In case of non-receipt of the LOF, the public shareholders holding the Equity Shares may download the same from the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Target Company (www.kunvarji.com), the Registrar to the Offer (www.camoinfo.com) and BSE (www.bseindia.com). Alternatively, they may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, the number of equity shares held, number of ID number, DP name, DP ID number, Folio No, certificate no., Dist.no., no. (in case of physical shares), client ID number, SEBI registered number and other relevant documents and other relevant documents as mentioned on page 25 of the LOF.

16. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on August 17, 2022. All observations, received from SEBI by way of their letter No. SEBI/HO/CFD/DCR-2/OW/2022/634941 dated December 23, 2022, in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, have been duly incorporated in the LOF.

There has been no material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on July 29, 2022, save as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.

| Revised Schedule of Activities: | ACTIVITY | DATE AND DAY (AS MENTIONED IN LOF) | DATE AND DAY (AS MENTIONED IN LOF) |
|--|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Public Announcement (PA) Date | | 29/07/2022 Friday | 29/07/2022 Friday |
| Publication of Detailed Public Statement (DPS) in the newspapers | | 05/08/2022 Friday | 05/08/2022 Friday |
| Filing of the draft letter of offer with a SEBI | | 17/08/2022 Wednesday | 17/08/2022 Wednesday |
| Last date for Public Announcement of a competing offer | | 01/09/2022 Thursday | 01/09/2022 Thursday |
| Last date for filing of the Letter of Offer with the Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer) | | 08/09/2022 Thursday | 23/12/2022 Friday |
| Identified Date* | | 12/09/2022 Monday | 27/12/2022 Tuesday |
| Last Date by which the Letter of Offer should be sent to the Shareholders holding Equity Shares of the Target Company | | 19/09/2022 Monday | 03/01/2023 Tuesday |
| Last Date by which the committee of the Independent Directors of the Target Company shall give its recommendation | | 22/09/2022 Thursday | 06/01/2023 Friday |
| Last date for upward revision of the offer price and/or the Offer Size | | 23/09/2022 Thursday | 09/01/2023 Monday |
| Date of publication of Offer Opening Public Announcement | | 23/09/2022 Friday | 09/01/2023 Monday |
| Date of commencement of Tendering Period | | 26/09/2022 Monday | 10/01/2023 Tuesday |
| Date of expiry of Tendering Period (Offer Closing Date) | | 10/10/2022 Monday | 23/01/2023 Tuesday |
| Last Date for completion of all requirements including payment of consideration | | 25/10/2022 Tuesday | 07/02/2023 Tuesday |

* Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that the Shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except all the Acquirer, Seller and Promoter and Promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time before the closure of this Offer. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer
KUNVARJI FIRSTSTOCK PRIVATE LIMITED
Block B, First Floor, Sridhar Vinayak Towers, Off S. G. Highway Road, Madhav Road, Madhav Nagar, Chennai - 600 059
SEBI Reg. No. : MB/M000012564
Email ID : niraj@kunvarji.com
Website: www.kunvarji.com
during the Tendering period, the Investor/Thakkar / Mr. Ronak Dhruve
Tel. No. : 0973 - 66669000

For and on behalf of the Acquirer
Sd/-
Mr. J. Jayakumar (Authorized Signatory)